

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2022-23	2022	2023		वि. व 2022-23	2022	2023	
			अप्रै.	मार्च			अप्रै.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	41.44	3.06	3.66	3.21	258797336	18651860	22458408	20115131
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	15.00	1.08	1.25	1.32	172251292	11915370	14269424	13093142
1.1.1 आउटराइट	7.99	0.59	0.65	0.79	10090700	870328	952079	1158660
1.1.2 रेपो	4.07	0.25	0.40	0.36	68032487	4315711	6682508	6633808
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.94	0.23	0.20	0.17	94128105	6729332	6634836	5300674
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	25.16	1.87	2.28	1.79	78932050	6124936	7329087	6450151
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.27	0.11	0.13	0.09	7613994	611554	859897	571838
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	—	—	—	—	—	—	—	—
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2425.62	195.32	248.01	201.57	149946286	11097594	16122902	11876806
1.1 ग्राहक लेनदेन	2411.19	194.11	246.66	200.44	131667176	9780600	14416322	10452024
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.43	1.21	1.35	1.13	18279111	1316994	1706580	1424781
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	983694.78	66747.57	100851.12	100492.45	55012192	4050335	5906936	4834441
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	5.90	0.55	0.36	0.36	356	33	24	25
2.2 एपीबीएस \$	17898.09	1119.53	1932.07	1066.77	247580	11118	26400	19744
2.3 आईएमपीएस	56532.64	4716.26	4970.56	4957.93	5585441	444670	546235	521050
2.4 एनएसीएच जमा \$	19267.00	1329.76	1962.73	1009.42	1544342	112354	178757	117079
2.5 एनईएफटी	52847.43	3737.59	5469.06	4825.37	33719541	2498587	3750569	2761038
2.6 यूपीआई @	837143.73	55843.88	86516.34	88632.60	13914932	983573	1404951	1415505
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.21	0.86	1.50	1.64	197	12	18	19
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	15343.22	1121.68	1403.39	1398.58	1289393	93616	126113	120185
3.1 भीम आधार पे @	214.22	16.76	12.92	16.09	6791	580	492	604
3.2 एनएसीएच नामे \$	13502.69	996.72	1246.53	1242.93	1280001	92902	125376	119338
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1626.31	108.20	143.94	139.56	2601	135	246	243
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63344.50	5541.17	5016.79	4887.94	2152425	170521	191035	187396
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	29145.25	2229.30	2634.29	2592.55	1432255	105459	137311	132769
4.1.1 पीओएस आधारित \$	15598.70	1152.87	1404.60	1408.20	541944	39807	50920	51624
4.1.2 अन्य \$	13546.54	1076.43	1229.69	1184.35	890311	65652	86391	81144
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	34199.25	3311.87	2382.50	2295.38	720169	65062	53724	54627
4.2.1 पीओएस आधारित \$	22917.38	2131.77	1652.35	1633.96	476693	43530	35222	37647
4.2.2 अन्य \$	11281.87	1180.10	730.15	661.43	243477	21532	18502	16980
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	74667.44	6455.19	6225.98	6277.47	287111	25317	22988	22525
5.1 वालेट	59112.76	5036.17	5036.24	5134.90	221896	19360	18801	18874
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15554.69	1419.02	1189.74	1142.57	65215	5957	4188	3651
5.2.1 पीओएस आधारित \$	1013.09	169.32	64.17	61.87	14777	3187	825	876
5.2.2 अन्य \$	14541.60	1249.70	1125.57	1080.70	50438	2770	3363	2775
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	7087.81	624.01	642.40	554.06	7162537	670259	701109	639281
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	7087.81	624.01	642.40	554.06	7162537	670259	701109	639281
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1144137.76	80489.63	114139.67	113610.50	65903658	5010048	6948181	5803828
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1146563.37	80684.95	114387.68	113812.06	215849944	16107643	23071084	17680633
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1139475.57	80060.94	113745.28	113258.00	208687407	15437383	22369974	17041352

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2022-23	2022	2023		वि. व. 2022-23	2022	2023	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	904589.23	59769.17	92896.37	83595.17	23341497	1684726	2401075	2154811
1.1 अंतर्बैंक \$	62306.61	4515.85	5868.83	5789.55	4191430	312810	436885	402248
1.2 अंतर-बैंक \$	842282.62	55253.32	87027.54	77805.62	19150067	1371916	1964190	1752562
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	42630.64	3670.77	3879.51	3406.99	91539296	7219903	8981727	7036829
2.1 अंतर्बैंक @	10703.78	967.14	987.21	855.07	53506133	4297281	4769894	3713764
2.2 अंतर-बैंक @	31926.86	2703.63	2892.30	2551.92	38033163	2922622	4211833	3323065
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	69464.85	5830.37	5921.72	5707.07	3305007	286411	286762	282827
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	88.37	6.12	8.26	7.49	4296	303	402	313
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	68971.46	5792.97	5878.89	5667.31	3286748	285011	284949	281248
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	405.32	31.28	34.56	32.28	13963	1097	1411	1266
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	27.80	2.32	2.33	2.11	284	22	24	18
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	27.47	2.24	2.32	2.10	282	22	23	18
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.33	0.08	0.02	0.02	2	1	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	12375.16	984.19	1083.61	998.82	333966	27824	30015	28954
5.1 ईपीएस @	12375.16	984.19	1083.61	998.82	333966	27824	30015	28954

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2023 तक	2022	2023	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10465.62	9956.84	10465.62	10535.25
1.1 क्रेडिट कार्ड	853.03	751.66	853.03	865.13
1.2 डेबिट कार्ड	9612.59	9205.18	9612.59	9670.12
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16185.26	15541.30	16185.26	16387.76
2.1 वॉलेट @	13384.68	12865.09	13384.68	13509.02
2.2 कार्ड @	2800.58	2676.21	2800.58	2878.75
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.59	2.51	2.59	2.55
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.19	2.23	2.19
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.32	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	16.11	9.48	16.11	14.28
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	77.90	61.26	77.90	78.37
6 भारत क्यूआर @	53.82	40.90	53.82	54.36
7 यूपीआई क्यूआर *	2563.77	1807.21	2563.77	2609.08

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

#: दिसंबर 2021 से शामिल सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा।

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।